



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1939 (श0)
(सं० पटना 15) पटना, बृहस्पतिवार, 4 जनवरी 2018

सं० प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2017-16(S)

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

2 जनवरी 2018

विषय :- पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 200 (दो सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक) के 657 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल 407 पद हैं जिसमें से 236 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक 7461 (एस) दिनांक 11.08.2015, एवं पत्रांक-9019 (एस) दिनांक 03.11.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचना भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लंबे समय अंतराल के बाद अब अन्य कार्य विभागों सहित नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने की संभावना है।

2. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के पदों पर प्रतिनियुक्ति पथ निर्माण विभाग द्वारा की जाती है, जहाँ पथ निर्माण विभाग से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाह्य सेवा में भी सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

3. पथ निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन के निमित्त, सहायक अभियंता (असैनिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंब के दृष्टिगत कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.2007 के निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन के आधार पर 200 (दो सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित

नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिए GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस नियोजन में आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। इस नियोजन हेतु अर्हताएँ वही होगी जो बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली में विहित है। नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति को संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.2007 की कंडिका-2 (4) के आलोक में गठित समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही अनुमान्य होगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 15-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>